



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 840 राँची, शुक्रवार

31 अगस्त, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 अगस्त, 2018

संख्या-5/आरोप-1-45/2018-1900 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती अमृता खाखा, झांझारपुर, (चतुर्थ बैच, गृह जिला-लातेहार), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध विभागीय अनुशासनहीनता बरतने, विभागीय नियमावली एवं कोषागार संहिता का उल्लंघन करने तथा सरकारी धन की हानि करने तथा पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने, स्वेच्छाचारिता बरतने, विभागीय निदेशों का उल्लंघन करने, सरकारी कोष को क्षति पहुँचाने तथा कोषागार संहिता का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-285/स्था०, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 एवं पत्रांक-346/स्था०, दिनांक 31 मई, 2018 द्वारा संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती खाखा के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती खाखा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती खाखा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. श्रीमती खाखा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMRITA KHAKHA 110031287102	श्रीमती अमृता खाखा, झा०प्र०से०, (चतुर्थ बैच, गृह जिला-लातेहार), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार जायसवाल,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

-----